



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ 1938 (श०)

(सं० पटना 97) पटना, सोमवार, 6 फरवरी 2017

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

अधिसूचना

31 जनवरी 2017

सं० नि० प्रा०/ नि० 1-12/ 2012-81—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा तत्काल संलग्न **अनुलग्नक-1** में अंकित **14 सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ के प्रबंधकारिणी समिति** का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **अनुलग्नक-1** में अंकित सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक **06.03.2017 (सोमवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित संघ के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन संघ के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-779 दिनांक 15.12.2016 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.11.2016 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 25.01.2017 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए **प्रपत्र-ईं 1** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना **दिनांक 07.02.2017 (मंगलवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-ईं 6** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र-ईं 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562, 2215089)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
फूल सिंह,
 मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

निर्वाचन देय सहकारी समितियों की सूची

क्र०	जिला	प्रखंड	प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम
1	2	3	4
1	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	मोतिहारी	सहयोगिक विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ, मोतिहारी
2	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	सुगौली	सहयोगिक विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ, सुगौली
3	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	चकिया	सहयोगिक विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ, चकिया
4	सिवान	जीरादेई	जीरादेई सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि०
5	सिवान	मैरवा	मैरवा सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि०
6	सिवान	हुसैनगंज	प्रतापपुर सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि०
7	सिवान	पचरूखी	पचरूखी सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि०
8	सिवान	सिवान	न्यू सिवान सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि०
9	गोपालगंज	बरौली	रतन सराय सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि०
10	गोपालगंज	हथुआ	कुसौधी सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि०
11	गोपालगंज	फुलवरिया	देवान परसा सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि०
12	गोपालगंज	फुलवरिया	कोयला देव सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि०
13	गोपालगंज	कुचायकोट	जलालपुर सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ लि०
14	मधुबनी	बेनीपट्टी	कपिलेश्वर स० वि० एवं ईख क्रय-विक्रय संघ

**अनुलग्नक-1 में उल्लिखित समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के
निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम**

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	07.02.2017 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	22.02.2017 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	23.02.2017 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	25.02.2017 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	06.03.2017 (सोमवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	06.03.2017 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 97-571+50-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>